



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 28—नवम्बर 3, 2006 (कार्तिक 6, 1928)  
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28—NOVEMBER 3, 2006 (KARTIKA 6, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	875	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1069	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3233
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1557	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	689
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	9309
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	687
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	Page No. 875	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	Page No. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	1069	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	9	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	3233
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1557		
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	689
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	9309
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	687
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय  
 (राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

शुद्धि-पत्र

सं. I/20017/01/2004-रा.भा. (नीति-1)--केन्द्रीय हिन्दी समिति के पुनर्गठन संबंधी भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के सम-संख्यक संकल्प में दिनांक 2 जून, 2005 के सम-संख्यक शुद्धि-पत्र के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है:--

संकल्प के क्रम संख्या 35 पर प्रो. डी. पी. कोठारी के स्थान पर प्रो. सुरेन्द्र प्रसाद पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना, आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एम. एल. गुप्ता  
 संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
 (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

सं. एफ. 9-13/2005-यू. 3--इस मंत्रालय की दिनांक 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. एफ. 917/93-यू. 3, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के उद्देश्यों हेतु विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सेलम को सम-विश्वविद्यालय घोषित किया था, के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सम-विश्वविद्यालय, सेलम के रंगसित विश्वविद्यालय, बैकाक, थाईलैंड के साथ हस्ताक्षरित संगम ज्ञापन में निर्धारित नियम तथा शर्तों पर बैकाक,

थाईलैंड में मेडिकल कार्यक्रमों हेतु प्रति वर्ष 100 अवर स्नातक मेडिकल छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले ऑफ शोर कैम्पस आरंभ करने हेतु विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से अनुमोदन प्रदान करती है।

2. यह घोषणा इस अधिसूचना की पृष्ठांकन की क्र. सं. 9 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर है।

3. भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान सम विश्वविद्यालय सेलम या इसकी घटक संस्थाओं को, भारत में इसके ऑफ कैम्पस सेंटर अथवा विदेश में इसके किसी भी ऑफ शोर केन्द्र को कोई योजनागत या योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेगा।

सुनील कुमार  
 संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2006

सं. 32-1/2006-समन्वय--'राष्ट्रीय संस्कृति नीति' के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की गई है:--

1. प्रो. यू. आर. अनंतमूर्ति  
 ने. 489 'सुरागी', एच आई जी हाऊस,  
 आर एम वी 2रा स्टेज, 6वां ए मेन,  
 बैंगलोर-560094
2. डॉ. कपिला वात्स्यायन  
 85, डी डी ए, एस एफ एस फ्लैट्स,  
 गुलमोहर एनक्लेव,  
 नई दिल्ली-110040
3. श्री गिरीश कर्नाड  
 697, 15 क्रास रोड,  
 जैती नगर, फेज-II,  
 बैंगलोर,  
 दूरभाष : 080 26590463
4. श्री एम टी वासुदेवन नायर  
 "सितारा"  
 कोटराम रोड,  
 कालीकट-673006  
 (केरल)

5. श्री रतन तैय्यम  
अध्यक्ष, कोरस रिपर्टरी थिएटर,  
यूरिपोक हाओबम दीवान लेन,  
इम्फाल-795001
  6. श्री भास्कर चन्द्रावरकर  
15, सैलेश पार्क (सोसाइटी),  
गणेश नगर,  
पुणे-411052
  7. प्रो. मृणाल मिरि  
ए.39, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-I,  
नई दिल्ली
  8. श्री अशोक वाजपेयी  
सी-60, अनुपम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,  
बी-13, वसुंधरा एनक्लेव,  
दिल्ली-96  
दूरभाष : 22622269
  9. प्रो. ज्योतिन्द्र जैन  
110, उत्तराखंड,  
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,  
नई दिल्ली-67  
दूरभाष : 26711973 (आ.), 26717610
  10. श्री रामचन्द्र गुहा  
22-ए, ब्रन्टन रोड,  
बैंगलोर-1,  
कर्नाटक
  11. सुश्री मल्लिका साराभाई  
दर्पण मंच कला अकादमी,  
उस्मानपुरा,  
अहमदाबाद-380013
  12. श्री गुलाम शेख  
"निहारिका"  
विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे,  
प्रताप गंज, बड़ोदरा-390002,  
दूरभाष : 2794589
  13. श्री दादी पदुमजी  
म. सं. 2211, ब्लॉक-2,  
वसन्त कुंज, नई दिल्ली,  
दूरभाष : 26892049
  14. प्रो. मुशीरूल हसन  
कुलपति,  
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय,  
जामिया नगर,  
नई दिल्ली-25
  15. श्री एस. के. मिश्र  
अध्यक्ष, इन्स्टीट्यूट,  
71, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-3  
दूरभाष : 24654090, 24611290
  16. प्रो. के. पाडया  
दक्कन कला महाविद्यालय,  
पुणे
  17. श्री श्याम बेनेगल  
103, संगम,  
पेद्दार रोड, मुम्बई,  
महाराष्ट्र-400026
  18. प्रो. मोहम्मद आमीन  
डी-25, ऑक्सफोर्ड अपार्टमेन्ट,  
मदर डेयरी के पीछे,  
पटपड़गंज,  
नई दिल्ली-110092
  19. श्री के. जयकुमार  
संयुक्त सचिव,  
संस्कृति मंत्रालय
- सदस्य-सचिव
2. समिति 'राष्ट्रीय संस्कृति नीति' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:--
    - (क) संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की सीमाओं और भूमिका का अध्ययन करना।
    - (ख) विभिन्न संस्थानों के आदेश पत्रों का मूल्यांकन करना तथा बदले परिदृश्य और प्राथमिकताओं में उन्हें एक साथ मिलाने की आवश्यकता की जांच करना।
    - (ग) अन्य क्षेत्रों से संबंधित संभावित क्षेत्रों का अध्ययन करना।
  3. समिति, इस संकल्प के जारी होने की तारीख से छः महीने की अवधि के अंदर अपनी संस्तुतियों को अंतिम रूप से तैयार करेगी।
  4. संस्कृति मंत्रालय समिति को सचिवालयीय सहायता प्रदान करेगा।
  5. समिति के बाहरी क्षेत्र के, गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय के दिनांक 23.6.1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19020/1/84-ई. IV के तहत यात्रा भत्ता तथा आवास के हकदार होंगे।
- आदेश
- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।
- यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन, संस्कृति विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।
- के. जयकुमार  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 17th October 2006

No. I/20017/01/2004-O.L. (Policy-1).—In the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language Resolution of even No. dated the 15th December, 2004, regarding the reconstitution of the Kendriya Hindi Samiti, with reference to corrigendum of even No. dated 2.06.2005, the following amendment is made :—

In the resolution, entry at Sl. No. 35, in place of Professor D. P. Kothari, Professor Surendra Prasad may be read.

**ORDER**

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Department of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. L. GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE  
DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th October 2006

No. F. 9-13/2005-U.3.—In continuation of this Ministry's notification No. F. 9-17/93-U.3 dated 1st March, 2001 whereby in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, declared Vinayaka Mission's Research Foundation, Salem as a 'Deemed to be University' for the purposes of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government hereby accords its approval to the proposal of Vinayaka Mission's Research Foundation (VMRF), Deemed University, Salem for starting of an Off-Shore Campus offering medical programmes at Bangkok, Thailand with an intake capacity of 100 undergraduate medical students per annum, on the terms and conditions mentioned in the Memorandum of Understanding signed by the Vinayaka Mission's Research Foundation, Deemed University, Salem with Rangsit University, Bangkok, Thailand, with immediate effect.

2. This declaration is subject to conditions mentioned at S. No. 9 of the endorsement of this notification.

3. government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non Plan grants to Vinayaka Mission's Research Foundation, Deemed University Salem or any of its constituent institutions, off-campus centres in the Indian territory, or any of its off-shore centres abroad.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE  
(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 11th October 2006

No. 32-1/2006-CDN.—A Committee consisting of the following members is constituted with a view to drafting a National Policy on Culture :—

1. Prof. U. R. Ananthamurthy  
No. 498 'Suragi', HIG House,  
RMV 2nd Stage, 6th A Main,  
Bangalore-560094
2. Dr. Kapila Vatsyayan  
85 DDA SFS flats,  
Gulmohar Enclave,  
New Delhi-110040
3. Shri Girish Karnad  
697, 15 Cross Road,  
Jaiti Nagar, Phase-II,  
Bangalore  
Tel : 080 26590463
4. Shri M. T. Vasudevan Nair  
"Sithara"  
Kotaram Road,  
Calicut-673006.  
(Kerala)
5. Shri Rattan theyyam  
Chairman  
Chorous Repertory Theatre,  
Uripok Haobam Dewan Lane,  
Imphal-795001
6. Shri Bhaskar Chandravarkar  
15 Sailesh Park (Society),  
Ganesh Nagar,  
Pune-411052
7. Prof. Mrinal Miri  
A-39, South Extension Pt. I,  
New Delhi
8. Shri Ashok Vajpayee  
C-60, Anupam Cooperative  
Housing Society,  
B-13, Vasundara Enclave,  
Delhi-96  
Tel : 22622269
9. Prof. Jyotindra Jain  
110, Uttarakhand,  
J.N.U.  
New Delhi-67  
Tel : 26711973 R. 26717610
10. Shri Ramchandra Guha  
22-A, Brunto Road,  
Bangalore-1,  
Karnataka

11. Ms. Mallika Sarabhai  
Darpana Academy of Performing  
Arts, USMANPURA,  
Ahmedabad-380013

12. Shri Ghulam Sheikh  
"Niharaka" Behind University,  
Health Centre,  
Pratap Ganj  
Vadodara-390002  
Tel : 2794589

13. Shri Dadi Padumji  
H. No. 2211, Block-2,  
Vasant Kunj  
New Delhi  
Tel : 26892049

14. Prof. Mushirul Hasan  
Vice Chancellor  
Jamia Millia Islamia University,  
Jamia Nagar,  
New Delhi-25

15. Shri S. K. Misra  
Chairman, INTACH  
71, Lodhi Estate,  
New Delhi-3  
Tel : 24654090 – 24611290

16. Prof. K. Padayya  
Deccan Art College,  
PUNE

17. Shri Shyam Benegal  
103, Sangam,  
Pedder Road, Mumbai,  
Maharashtra-400026

18. Prof. Mohammad Amin  
D-25 Oxford Apartment,  
Behind Mother Dairy,  
Patparganj,  
New Delhi-110092

19. Shri K. Jayakumar  
Joint Secretary  
Deptt. of Culture

Member -Secretary

2. The Committee may, before finalizing its recommendations on the National Policy on Culture :—

- (a) Study the extent and role of the Govt. in the various areas of culture.
- (b) Assess the mandate of the various institutions and examine the necessity of realigning them with changed scenarios and priorities.
- (c) Study the potential areas of linkages with other sectors.

3. The Committee may finalize its recommendations within a period of six months w.e.f. the date of issue of this Resolution.

4. Ministry of culture will provide the secretarial assistance to the Committee.

5. Outstation, non-official members of the Committee will be entitled for travel allowances and accommodation in accordance with the Ministry of Finance Office Memorandum Number 190201/84-E.IV dated 23.06.1986.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Department of Government of India, all State Governments/Union Territories Administration, All Attached & Subordinate and Autonomous Bodies of Department of Culture for information.

K. JAYAKUMAR, Jt. Secy.